



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1932 (श0)
(सं0 पटना 527) पटना, मंगलवार, 3 अगस्त 2010

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

27 जुलाई 2010

सं0 14/एम-7-279/09-2342—बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-30 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा 2010-11 शैक्षणिक सत्र के दौरान परीक्षा के परिणामों की घोषणा निम्न तालिका के अनुसार करने का आदेश देती है।

कामेश्वर सिंह-दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा

परीक्षा का नाम	सत्र	परीक्षारम्भ तिथि	परीक्षाफल प्रकाशन तिथि
उपशास्त्री	2009-11	16.02.2011	20.04.2011
शास्त्री प्रथम खण्ड	2010-13	15.03.2011	16.05.2011
शास्त्री द्वितीय खण्ड	2009-12	15.03.2011	16.05.2011
शास्त्री तृतीय खण्ड	2008-11	15.03.2011	16.05.2011
आचार्य प्रथम खण्ड	2010-12	15.04.2011	31.05.2011
आचार्य द्वितीय खण्ड	2009-11	15.04.2011	31.05.2011

व्यावसायिक परीक्षा			
शिक्षाशास्त्री	2010-11	04.04.2011	16.05.2011
पूर्व शिक्षाशास्त्री	2011-12	26.03.2011	30.04.2011
शोध पंजीयन अर्हता परीक्षा	2011	26.03.2011	30.04.2011
आयुर्वेद प्रथम व्यावसायिक	2011	04.07.2011	16.08.2011
आयुर्वेद द्वितीय व्यावसायिक		04.07.2011	16.08.2011
आयुर्वेद तृतीय व्यावसायिक		04.07.2011	16.08.2011

2. उक्त विश्वविद्यालय उक्त तालिका के अनुसार परीक्षा आयोजित करेंगे। साथ ही निर्धारित समय से पूर्व परिणामों की घोषणा करेंगे।

3. उक्त के अनुसार विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों के सभी पदाधिकारी, कर्मी, वीक्षक तथा परीक्षा से संबंध रखनेवाले सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान 1860 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे

4. उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालय अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी विशेष वर्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

5. एकैडमिक कैलेंडर को शत-प्रतिशत अनुपालन करने एवं शैक्षणिक सत्र को नियमित करने हेतु आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तालिका को कॉन्डेंस (condense) किया जा सकता है। विधिवत पाठ्ययोजना (Lesson plan) को भी आवश्यकतानुसार लागू किया जा सकता है।

6. वाक आउट/स्टे आउट तथा अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की पुनर्परीक्षा नहीं होगी।

7. छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रखने वाले छात्र/छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० के० पाठक,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 527-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>